

परसपेक्टवि: महिला नेतृत्व में विकास

प्रलिमिंस के लयि:

जी-20, समावेशी विकास, सतत विकास, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, महिला आरक्षण अधिनियम, स्टैंड-अप इंडिया, PM मुद्रा योजना, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, PM जन धन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन, PM आवास योजना, प्रसूति अवकाश।

मेन्स के लयि:

महिला नेतृत्व में विकास के बारे में, लैंगिकता का भारत की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर होना, भारत में महिला नेतृत्व में विकास के मार्ग में चुनौतियाँ, महिला नेतृत्व में विकास का भारतीय दृष्टिकोण।

संदर्भ क्या है?


हाल ही में भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान समावेशी विकास, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति, पर्यावरण के अनुकूल विकास, तकनीकी नवाचार और बहुपक्षीय संस्थानों के पुनर्गठन के साथ-साथ "महिला नेतृत्व में विकास" को छह केंद्रीय बटुओं के रूप में नामित किया, यह भारत के भीतर एक प्रमुख नीतित्म मुद्दे के रूप में लैंगिक समानता को संबोधित करने के स्थायी महत्त्व की मान्यता का प्रतीक बना।

महिला नेतृत्व में विकास क्या है?

- "महिलाओं के नेतृत्व में विकास" एक विकास दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, जिसमें महिलाएँ अग्रणी भूमिका निभाती हैं और किसी समाज या समुदाय की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।
- महिला-नेतृत्व में विकास के तहत महिलाएँ केवल विकास की लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि वे नेतृत्वकर्ता के रूप में विकास का एजेंडा तय करने और विकास योजना के निर्माण तथा निरणयन में भागीदारी करती हैं।
- इसमें सामाजिक-आर्थिक विकास और SDG की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिये महिलाओं को आगे भी अग्रणी पदों में नियोजित करने पर ध्यान केंद्रित करना है।
- इस दृष्टिकोण का उद्देश्य लैंगिक समानता के महत्त्व को पहचानने के साथ उन बाधाओं को दूर करना है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से विकास के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं की भागीदारी और योगदान को सीमित कर दिया है।

लैंगिकता भारत की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर क्यों है?

- व्यापक लैंगिक अंतर: ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 में भारत को 146 देशों में से 127वाँ स्थान दिया गया था और कार्यबल से "महिलाओं के अनुपस्थिति होने की" (Missing Women) सार्वकालिक समस्या का सामना करता है, जो एक बड़ी समस्या है।
- समावेशी निरणय-निर्माण: महिलाओं के नेतृत्व में विकास समावेशी निरणय-निर्माण संरचनाओं को बढ़ावा देता है जिसमें सामुदायिक योजना, संसाधन आवंटन और नीति निर्माण में महिलाओं को शामिल किया जाता है। यह समावेशिता समुदाय के भीतर विविध आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को संबोधित करने में सहायता करती है।
- सामुदायिक विकास: जब महिलाओं की संसाधनों तक पहुँच होती है, तो वे पुरुषों की तुलना में परिवार और समुदायों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अधिक निवेश करती हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं ने विभिन्न सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के साथ उन्हें कार्यान्वित किया है। इसमें जल प्रबंधन, स्वच्छता, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और गरीबी उन्मूलन से संबंधित पहल शामिल हैं।
- सतत विकास: महिलाओं के नेतृत्व में विकास को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाता है। पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देकर ये पहल समुदाय के दीर्घकालिक कल्याण में योगदान करती हैं।
- गुणक प्रभाव: भारतीय अर्थव्यवस्था पर महिला नेतृत्व में विकास का गुणक प्रभाव पड़ता है। मैकनिसे की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में 18% तक का इज़ाफा कर सकता है, बशर्ते कि वह देश में महिला कार्यबल की भागीदारी में सुधार कर लैंगिक समानता के अंतर को खत्म करे।



महिला नेतृत्व में विकास को लेकर प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **गहरी जड़ें जमा चुकी पतिसत्ता:** भारत में पतिसत्तात्मक मानदंड और सामाजिक संरचनाएँ गहरी जड़ें जमा चुकी हैं जो महिला सशक्तीकरण और नेतृत्व में बाधा बनती हैं। इन सांस्कृतिक दृष्टिकोणों और व्यवहारों को बदलना एक बड़ी चुनौती है।
- **लगा आधारति हिसा:** भारत में महिलाओं के खिलाफ हिसा की दर दुनिया में सबसे अधिक है। [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो \(NCRB\)](#) के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले सामने आए, जिनमें से 32,033 मामले बलात्कार के थे।
- **संसाधन आवंटन:** महिलाओं के नेतृत्व में विकास पहलों के लिये संसाधनों का आवंटन और यह सुनिश्चित करना कठिने इच्छति लाभार्थियों तक पहुँचें, प्रशासनिक अक्षमताओं और भ्रष्टाचार के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
 - कृषि जनगणना से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 में महिला भूमि मालिकों की संख्या केवल 13.9% थी।
- **राजनीतिक अल्प-प्रतनिधित्व (Political Underrepresentation):** स्थानीय स्तर सहित राजनीतिक भूमिकाओं में महिलाओं को कम प्रतनिधित्व दिया जाता है। महिलाओं की अधिक राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना एक चुनौती है।
 - भारत की संसद में केवल 82 महिला- लोकसभा में (15.2%) और राज्यसभा में (13%) सदस्य हैं।
- **डेटा संग्रह और विश्लेषण:** महिलाओं की स्थिति और नीतियों के प्रभाव पर विश्वसनीय डेटा एकत्र करना और विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे प्रगत को मापना मुश्किल हो जाता है।
- **कानूनी प्रवर्तन:** हालाँकि भारत ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये विभिन्न कानून बनाए हैं, लेकिन इन कानूनों का कार्यान्वयन असंगत हो सकता है, जो न्याय और जवाबदेही के लिये चुनौती बन सकता है।


महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलें क्या हैं?

- [महिला आरक्षण अधिनियम](#)
- [सर्टिड-अप इंडिया](#)
- [PM मुद्रा योजना](#)
- [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ](#)
- [PM जनधन योजना](#)
- [राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन](#)
- [PM आवास योजना](#)
- [प्रसूति अवकाश](#)



India is moving from Women Development to Women-Led Development

Funding the aspirations of women entrepreneurs



आगे की राह क्या होनी चाहिये?

- **नेतृत्व और नरिणय लेना:** भारत को ज़मीनी स्तर पर महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ राजनीतिक प्रणालियों और शासन में महिलाओं के नेतृत्व एवं सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिये।
- **शिक्षा और कौशल:** भारत को विशेष रूप से STEM क्षेत्रों में महिलाओं के लिये शिक्षा में नविश और पहुँच बढ़ाने पर ज़ोर देना चाहिये।
- **महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना:** महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और महिलाओं के स्वामित्व वाले तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) का समर्थन करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- **अदृश्य काम को पहचानना:** घरेलू कार्यों की पहचान एवं उन्हें मान्यता देकर अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा में नविश करने तथा सकल घरेलू उत्पाद को फरि से परभाषित करने की आवश्यकता है।
- **जलवायु और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका:** भारत को जलवायु संबंधी लचीलेपन के साथ पारस्थितिकी तंत्र के नरिमाण में महिलाओं की भागीदारी के महत्त्व पर प्रकाश डालना चाहिये। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण से निपटने में महिलाओं की भूमिका को पहचानना और बढ़ावा देना।
- **बदलती मानसिकता:** भारत में महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करने के लिये समाज की मानसिकता को बदलना आवश्यक है। महिलाओं के नेतृत्व को महत्त्व देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिये जागरूकता का प्रसार करना और शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है।

UN WOMEN'S CALL TO ACTION TO PARLIAMENTARIANS



End Discriminatory Laws

Discriminatory laws affect some 2.5 billion women and girls around the world. By reviewing national legislation and prioritizing the elimination of any inequality in the law, parliamentarians can make laws work for everyone.



Get More Women in Parliaments, Cabinets and Leadership

By encouraging women to enter politics, adopting quotas or other methods to increase the numbers of women in leadership and implementing parity in cabinets, parliamentarians can make sure everyone has the same access to power.



Implement Progressive Law Reforms

By implementing legislation known to support gender equality, such as shared parental leave, equal pay and laws that support eliminating violence against women, parliamentarians can make progress happen faster.



Challenge Norms and Traditional Gender Stereotyping

By using their platforms to challenge the norms and stereotypes that hold women and girls back from fully enjoying equal rights and opportunities, parliamentarians can change their cultures and societies.



Support Other Women in Politics

By supporting and working with other women, including across political and party lines, for the common goal of gender equality, parliamentarians can work towards a greater consensus for a better world.

Progress towards gender equality in Parliaments will improve the lives of women and girls around the world.

नबिऒरषः

भारत को ँक प्रगतशील और लैंगकिसमानता वाला समाज सुनश्चिऒति करने के लयि राजनीतिक प्रतबिद्धताओं से कहीं अधिक ध्यान केंद्रति करने की आवश्यकता है; महिलाओं के नेतृत्व में वकिस को साकार करने के लयि समान अवसरों और बुनयिदी जूरतों को पूरा करना आवश्यक है। देश में समावेशी एवं सतत् वकिस के लयि सभी स्तरों पर महिला नेतृत्व को बढावा देना महत्त्वपूर्ण है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा वशिऒ के देशों के लयि 'सार्वभौमक लैंगक अंतराल सूचकांक' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017)

- (a) वशिऒ आर्थक मंच
- (b) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
- (c) संयुक्त राष्ट्र महिला
- (d) वशिऒ स्वास्थय संगठन

उत्तर: A

??????????:

प्रश्न. पटृसत्तात्मक दृष्टकिण भारत में मध्यम वर्ग की कामकाजी महिलाओं की स्थतिको कसि प्रकार प्रभावति करता है? (2014)

